



05 जून 2023

# कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट



 **smc**  
moneywise. be wise.



## प्रमुख खबरें

- रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, मजबूत मांग के कारण भारत का मैनुफैक्चरिंग पीएमआई अप्रैल के 57.2 से बढ़कर मई में 58.7 हो गया।
- पिछले वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 6.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा। इसके अलावा, केंद्र ने अब वित्त वर्ष-23 की समग्र विकास दर 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है
- रूस से भारत का कच्चे तेल का आयात मई में एक नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया क्योंकि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता रूस से करीब 2 मिलियन बैरल प्रति दिन कच्चे तेल का आयात किया है।
- कैबिनेट ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के कार्यक्रम को मंजूरी दी।
- सरकार ने पाम ऑयल, सोना और चांदी पर आयात शुल्क घटाया।
- वर्तमान रबी विपणन सीजन 2023-24 के दौरान 30.05.2023 तक 262 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है, जो पिछले साल की कुल खरीद से 74 लाख मीट्रिक टन अधिक है।
- रूसी ऊर्जा समूह गजप्रोम द्वारा यूरोप को पाइपलाइन नेचुरल गैस का निर्यात अप्रैल की तुलना में मई में 14.7% घट गया: रॉयटर्स।
- एलएमई के आंकड़ों से पता चला है कि एलएमई के गोदामों में जमा जिक बढकर 87,500 टन हो गया है, जो मई 2022 के बाद का सबसे उच्चतम स्तर है।
- वित्त वर्ष 2022-23 में भारत में तांबे के आयात में साल-दर-साल 15 फीसदी की बढोतरी दर्ज की गई। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत ने पिछले वित्त वर्ष में 2,75,341 टन तांबे का आयात किया था।

## NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	26.05.23	01.06.23	बदलाव (%)
कॉटनसीडऑयलक्रेक	2491.00	2557.00	2.65%
कपास	1486.00	1516.00	2.02%
ग्वारगम	10711.00	10908.00	1.84%
गुड़	1447.00	1473.00	1.80%
ग्वारसीड	5424.00	5503.00	1.46%

## NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	26.05.23	01.06.23	बदलाव (%)
कैस्टरऑयल	1157.00	1102.00	-4.75%
कैस्टरसीड	5577.00	5366.00	-3.78%
बाजरा	2161.00	2123.00	-1.76%
मक्का	1829.00	1807.00	-1.20%
सीसेमसीड	14975.00	14810.00	-1.10%

## MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	26.05.23	01.06.23	बदलाव (%)
सोना	59560.00	60234.00	1.13%
सोना एम	59539.00	60164.00	1.05%
सोना पेटल	5981.00	6030.00	0.82%
सोना गिनी	48041.00	48423.00	0.80%
मेंथा ऑयल	963.00	970.20	0.75%

## MCX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	26.05.23	01.06.23	बदलाव (%)
नेचुरल गैस	207.70	190.50	-8.28%
कच्चा तेल	6030.00	5866.00	-2.72%
निकल	1808.30	1776.70	-1.75%
लेड	184.10	183.30	-0.43%

## साप्ताहिक समीक्षा

डॉलर इंडेक्स में बढोतरी से सीआरबी इंडेक्स में अधिक गिरावट हुई। डॉलर के मजबूत होने से दूसरी करेंसी रखने वाले खरीदारों के लिए तेल महंगा हो जाता है। डॉलर अभी भी मई में 10-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब बना हुआ है, जो लंबे समय तक अधिक अमेरिकी दरों की संभावना से उत्साहित है। सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया और अंत में हरे निशान में बंद हुई। सर्गाफा काउंटर में तीन सप्ताह की गिरावट के बाद खरीदारी लौटी है। फेडरल रिजर्व द्वारा जून में ब्याज दरों को स्थिर बनाए रखने के बढते अनुमान के बीच सोने की कीमतों में दो महीने के निचले स्तर से रिकवरी हुई, जबकि अमेरिकी ऋण सीमा को बढाने के लिए एक विधेयक प्रतिनिधि सभा द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद पारित होने के करीब पहुंच गया है। बढती ब्याज दरें, सोने जैसी गैर-योल्ड संपत्तियों को रखने की अवसर लागत को बढाती हैं, जिससे निवेशकों की मांग को कम करती हैं। एनर्जी काउंटर ने अपनी पिछली बढत को गवां दिया। मजबूत अमेरिकी डॉलर और शीर्ष तेल आयातक चीन के कमजोर आंकड़ों के दबाव, जिससे मांग में कमी आई, से बुधवार को तेल की कीमतें कम हो गईं। चीन के आंकड़ों से पता चलता है कि मई में मैनुफैक्चरिंग गतिविधि अपेक्षा से अधिक तेजी से कम हुई है क्योंकि कमजोर मांग के कारण आधिकारिक मैनुफैक्चरिंग क्रय प्रबंधकों के सूचकांक (पीएमआई) अप्रैल के 49.2 से घटकर मई में 48.8 रह गया, जो 49.4 के पूर्वानुमान से भी कम है।

बेस मेटल में अलग-अलग दिशाओं में कारोबार हुआ। जिक और लेड की कीमतों में गिरावट हुई जबकि एल्युमीनियम की कीमतें एक दायरे में रही। तांबे की कीमतों में मामूली बढोतरी हुई है। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि चीन में फिर से खुलने के बाद आर्थिक सुधार की गति कम हो रही है जबकि अमेरिका और यूरो क्षेत्र में मैनुफैक्चरिंग गतिविधि भी काफी धीमी हो रही है। यह औद्योगिक धातु की कीमतों पर भारी पड़ा, और मई में तांबे की कीमतें लगभग सात महीने के निचले स्तर पर लुढ़क गई लेकिन बाद में इसकी कीमतों में निचले स्तर से रिकवरी हुई। लंदन मेटल एक्सचेंज के पंजीकृत गोदामों में जिक का भंडार मलेशिया में एक शिपमेंट के आने के बाद पिछले सप्ताह से लगभग दोगुना होकर एक साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भंडारण सुविधाओं में धातु की स्थिर आवक से संकेत मिलता है कि बढती आपूर्ति और निर्माण क्षेत्र से कमजोर मांग के कारण स्टील को गैल्वेनाइज करने के लिए इस्तेमाल होने वाले जिक का सरप्लस बढ रहा है।

कृषि कमोडिटीज में, निर्यात मांग में कमी के कारण अरंडी कीमतों में गिरावट जारी रही। एल नीनो की घटना के बढते डर के कारण उत्पादन में कमी को लेकर बढती चिंताओं से कॉटनऑयलसीडकेक और कॉटनकैडी की कीमतें तीन सप्ताह के निचले स्तर से रिकवरी करते में कामयाब हो गईं। ग्वार काउंटर ऊपर जाने में असमर्थ रहा और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, किसानों के पास पर्याप्त स्टॉक के बीच सुस्त निर्यात मांग के कारण साप्ताहिक स्तर पर गिरावट के साथ बंद हुआ। मसालों में जीरा में खरीदारी लौटी जबकि धनिया और हल्दी में गिरावट के साथ कारोबार हुआ।



## हाजिर कीमतें

कमोडिटी	स्थान	26.05.2023	01.06.2023	बदलाव( % )
जौ	जयपुर	2,006.20	1,993.20	-0.65%
चना	दिल्ली	5,065.65	5,087.70	0.44%
धनिया	कोटा	6,512.80	6,442.55	-1.08%
क्रूड पॉम ऑयल	कांडला	849.90	778.10	-8.45%
गुड़	मुजफ्फरपुर	1,439.85	1,480.90	2.85%
ग्वारसीड	जोधपुर	5,442.35	5,497.60	1.02%
ग्वारगम	जोधपुर	10,657.15	10,821.75	1.54%
जीरा	ऊझा	45,496.50	45,888.50	0.86%
सरसों	जयपुर	5,201.95	5,076.35	-2.41%
रिफाइंड सोया तेल	मुंबई	910.00	860.00	-5.49%
सोयाबीन	इंदौर	5,304.90	5,191.85	-2.13%
हल्दी	निजामाबाद	7,484.85	7,392.90	-1.23%
गेहूं	दिल्ली	2,492.00	2,500.00	0.32%
कॉटन	कड़ी	26,771.65	27,548.50	2.90%
कॉटनऑयलसीडकेक	अकोला	2,608.55	2,671.00	2.39%

## LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत ( डॉलर में )

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	26.05.2023	01.06.2023	बदलाव( % )
एल्युमीनियम	LME	नकद	2237.50	2282.50	2.01%
तांबा	LME	नकद	8135.00	8243.50	1.33%
लेड	LME	नकद	2078.50	1999.00	-3.82%
निकल	LME	नकद	21162.00	21318.00	0.74%
जिंक	LME	नकद	2343.50	2267.00	-3.26%
सोना	COMEX	जुलाई	1944.30	1986.50	2.17%
चांदी	COMEX	जुलाई	23.36	24.10	3.15%
लाइट क्रूड	NYMEX	जून	72.67	70.10	-3.54%
नेचुरल गैस	NYMEX	जुलाई	2.18	2.16	-1.05%

## अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	26.05.2023	01.06.2023	बदलाव( % )
सोयाबीन	CBOT	जुलाई	13.37	13.27	-0.75%
सोया तेल	CBOT	जुलाई	48.82	48.21	-1.25%
कॉटन	ICE	जुलाई	83.35	86.52	3.80%
सीपीओ	BMD	अगस्त	3,559.00	3,358.00	-5.65%

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

कमोडिटी	यूनिट	25.05.2023 क्वांटिटी	01.06.2023 क्वांटिटी	अंतर
बाजरा	मी.टन	0	0	0
मक्का	मी.टन	50	50	0
कैस्टर सीड	मी.टन	9208	10677	1469
चना	मी.टन	9378	10383	1005
धनिया	मी.टन	20029	21004	975
कॉटनऑयलसीडकेक	मी.टन	17131	17067	-64
ग्वारगम	मी.टन	21868	21035	-833
ग्वारसीड	मी.टन	159	159	0
जीरा	मी.टन	7554	7667	113
मक्का	मी.टन	0	0	0
स्टील लॉग	मी.टन	632	632	0
हल्दी	मी.टन	1105	1175	70

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

कमोडिटी	यूनिट	25.05.2023 क्वांटिटी	31.05.2023 क्वांटिटी	अंतर
एल्युमीनियम	मी.टन	51	239	188
तांबा	मी.टन	1677443	1849744	172301
सोना	किग्रा	325	325	0
सोना मिनी	किग्रा	2840	2840	0
सोना गिनी	किग्रा	524400	247800	-276600
लेड	किग्रा	0	0	0
चांदी (30 किग्रा बार)	किग्रा	161926	159916	-2010
चांदी एम	किग्रा	40567	40567	0
जिंक	मी.टन	0	0	0

## LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति(टन में)

कमोडिटी	स्टॉक की स्थिति 26.05.2023	स्टॉक की स्थिति 01.06.2023	अंतर
एल्युमीनियम	586525	578825	-7700.00
तांबा	99700	99525	-175.00
निकल	38172	37686	-486.00
लेड	35825	36450	625.00
जिंक	74325	87450	13125.00



## ट्रेंड शीट

एक्सचेंज	कमोडिटी	कट्रेक्ट	बंद* भाव	ट्रेंड बदलाव की तिथि	ट्रेंड	भाव के ट्रेंड में बदलाव	सपोर्ट	रेजिस्टेंस	क्लोजिंग स्टॉप लास
NCDEX	जीरा	जुलाई	43710.00	14.03.23	तेजी	32000.00	43400.00	-	43300.00
NCDEX	हल्दी	अगस्त	8148.00	06.04.23	तेजी	7035.00	7750.00	-	7700.00
NCDEX	ग्वारसीड	जुलाई	5422.00	29.03.23	मंदी	5650.00	-	5670.00	5700.00
NCDEX	कैस्टरसीड	जुलाई	5597.00	26.04.23	मंदी	6120.00	-	5890.00	5900.00
NCDEX	स्टील लांग	जून	45980.00	30.01.23	मंदी	50000.00	-	48250.00	48300.00
NCDEX	कॉटनऑयलसीडकेक	जुलाई	2467.00	11.04.23	मंदी	2800.00	-	2770.00	2800.00
MCX	मेंथा ऑयल	जून	944.60	14.03.23	मंदी	1015.00	-	968.00	970.00
MCX	बुलडेक्स	जून	16000.00	11.05.23	मंदी	16600.00	-	16550.00	16600.00
MCX	चांदी	जुलाई	70242.00	11.05.23	मंदी	75000.00	-	74800.00	75000.00
MCX	सोना	अगस्त	59460.00	11.05.23	मंदी	61200.00	-	61850.00	62000.00
MCX	मेटलडेक्स	जून	15772.00	23.06.22	साइडवेज	17500.00	15200.00	16300.00	-
MCX	तांबा	जून	702.60	19.04.23	मंदी	775.00	-	738.00	740.00
MCX	लेड	जून	183.55	31.05.23	मंदी	183.00	-	186.00	187.00
MCX	जिंक	जून	206.25	19.04.23	मंदी	252.00	-	221.00	222.00
MCX	एल्युमिनियम	जून	206.70	01.06.23	साइडवेज	209.00	201.00	216.00	-
MCX	कच्चा तेल	जून	5946.00	19.04.23	मंदी	6500.00	-	6190.00	6200.00
MCX	नेचुरल गैस	जून	202.80	31.05.23	मंदी	195.00	-	223.00	225.00

\*01/06/2023 का बंद भाव

नोट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लास बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लास को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में पड़बूती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लास अधिक होगा क्योंकि हम सप्ताहिक आधार पर प्राक को देखते हैं और लम्बे समय तक के रुझानों को लेते हैं।  
2. इस सप्ताहिक ट्रेंड का मिलान योजना के ट्रेंड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन सुबह को मार्निंग रिपोर्ट के नाम से ई-मेल किया जाता है।

## टेक्निकल सुझाव

### तांबा ( जून ) एमसीएक्स



### तांबा ( जून ) एमसीएक्स

उच्चस्तर: 778.85

निचला स्तर: 695.80

एमसीएक्स में तांबा (जून) कॉन्ट्रैक्ट 01 जून 2023 को 715.90 रु पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 720.11 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 56.074 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

704.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 738.00 रु के टारगेट के लिए 715.00 रु के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

### हल्दी ( अगस्त ) एनसीडीईएक्स



### हल्दी ( अगस्त ) एनसीडीईएक्स

उच्च स्तर: 9068.00

निचला स्तर: 7746.00

एनसीडीईएक्स में हल्दी (अगस्त) कॉन्ट्रैक्ट 01 जून 2023 को 8030.00 रु पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 8129.88 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 37.65 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

8420.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 7600.00 रु के टारगेट के लिए 8150.00 रु के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।

### एल्युमिनियम ( जून ) एमसीएक्स



### एल्युमिनियम ( जून ) एमसीएक्स

उच्च स्तर: 217.85

निचला स्तर: 203.35

एमसीएक्स में एल्युमिनियम (जून) कॉन्ट्रैक्ट 01 जून 2023 को 208.50 रु पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 207.91 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 64.499 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

203.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 216.00 रु के टारगेट के लिए 208.00 रु के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।



## अगले सप्ताह में बाजार का रुख

### मसाले

बाजार में नए संकेतों के अभाव में हल्दी (जून) वायदा की कीमतों में मिलाजुला रूझान रहने की संभावना है। मौजूदा कीमतों पर मांग को लेकर चिंताओं के कारण कीमतों में नरमी का रूझान है। स्टॉक और मिल मालिक आपूर्ति में अधिक बढ़ोतरी की उम्मीद में थोक खरीदारी से परहेज कर रहे हैं। प्रमुख उत्पादक राज्यों में उत्पादन कम होने से आपूर्ति सामान्य से कम है। अप्रैल 23 से मई 23 तक प्रमुख एपीएमसी मंडियों में अब तक लगभग 128.4 हजार टन की आवक हो चुकी है, जबकि पिछले वर्ष 137 हजार टन आवक हुई थी। लेकिन बेहतर कीमतों की प्राप्ति के कारण मई 23 में आवक बढ़ी है, लेकिन फसल की गुणवत्ता संदिग्ध है। महाराष्ट्र में बैमौसम बारिश से फसल खराब होने की खबरें सामने आ रही हैं जिससे वास्तविक उत्पादन को लेकर चिंता बढ़ गई है। महाराष्ट्र में उत्पादन में कमी की उम्मीद है, जहां कमजोर मॉनसून के पूर्वानुमान ने आगामी फसल को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। हल्दी का रकबा अन्य खरीफ फसलों की ओर स्थानांतरित हो सकता है जिससे उत्पादन में गिरावट आएगी। लेकिन भारी स्टॉक के कारण बढ़त सीमित रह सकती है। हल्दी की कीमतें 7400-8000 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

मौजूदा दर पर सुस्त खरीदारी के कारण जीरा (जून) वायदा की कीमतों में नरमी बरकरार रहने की संभावना है। सस्ती दर पर बढ़ते आयात और बढ़ी हुई मौसमी आपूर्ति से कीमतों पर दबाव पड़ने की संभावना है। ऊंची कीमतों के कारण भारत से निर्यात कम हुआ है क्योंकि भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में पिछले वर्ष के 204 हजार टन की तुलना में लगभग 176 हजार टन का निर्यात किया।

कम कैरीओवर स्टॉक और बाजार में सामान्य से कम आवक के कारण प्रमुख रूझान अभी भी तेज है। राजस्थान और गुजरात में हाल ही में हुई बारिश के बाद नई फसल की गुणवत्ता भी सवालों के घेरे में है। तकनीकी रूप से कीमतों को 48000 के स्तर के पास मजबूत रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है और मांग की चिंताओं के कारण कीमतों में अधिक गिरावट होने की संभावना है। जीरा वायदा की कीमतों के 41000-48000 के दायरे में कारोबार करने की उम्मीद है।

प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर आपूर्ति में वृद्धि के कारण धनिया वायदा (जून) की कीमतों के नरमी के रूझान के साथ कारोबार करने की संभावना है। पूरे भारत में धनिया का कुल उत्पादन 8%-10% बढ़ने का अनुमान है जो आने वाले हफ्तों में आपूर्ति को पर्याप्त बनाए रखेगा। लेकिन गिरावट सीमित होने की संभावना है क्योंकि कीमतें 2 साल के निचले स्तर पर चल रही हैं जो बाजार में नई खरीदारी को बढ़ावा दे सकती है। वायदा प्लेटफॉर्म पर किसी भी समय शॉर्ट कवरेज देखी जा सकती है, इसलिए सावधानीपूर्वक बिक्री की सलाह दी जाती है। धनिया (जून) वायदा की कीमतें 6000-6600 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

### अन्य कमोडिटीज

आपूर्ति कम होने से कपास की कीमतों में मजबूती बरकरार रहने की संभावना है। वर्ष 2023 में कमजोर मॉनसून की संभावनाओं के कारण आगामी फसल उत्पादन को लेकर बढ़ती चिंता कीमतों की मजबूती को समर्थन मिलने की संभावना है। मौसम संबंधी चिंताओं के कारण पंजाब में बुवाई लक्ष्य से काफी पीछे है, जिससे आगामी सीजन में उत्पादन में गिरावट आएगी। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 2022-23 सीजन के लिए कपास उत्पादन के अनुमान को 465,000 गांठ घटाकर 29.8 मिलियन गांठ कर दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और ओडिशा में उत्पादन घटने की उम्मीद है। कपास उत्पादन का नवीनतम अनुमान 2008-09 सीजन के बाद सबसे कम है जो 29.0 मिलियन गांठ था। एमसीएक्स पर कॉटन (जून) की कीमतों के 56500-60000 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है। इसी तरह, कपास अप्रैल 24 वायदा की कीमतों के 1500-1570 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

बाजार में घटती मांग के कारण कॉटनसीडऑयलकेक (जून) वायदा की कीमतों में नरमी की संभावना है। लेकिन कपास के उत्पादन में गिरावट से कपास के बीज के उत्पादन में भी कमी आने की संभावना से गिरावट सीमित रह सकती है। कॉटनसीडऑयलकेक खली की कीमतें 2350-2750 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

कमजोर मांग के कारण ग्वारसीड (जून) वायदा कीमतों में गिरावट की संभावना है। कच्चे तेल की कीमतों में कमजोरी के मद्देनजर ग्वारसीड का भारी स्टॉक और ग्वारगम की कमजोर मांग की संभावना से कीमतों पर दबाव पड़ने की संभावना है। लेकिन अलनीनो मौसम की घटना के विकास की संभावना के कारण वर्ष 2023 में मानसून के शुष्क दौर की बढ़ती संभावनाओं से नुकसान सीमित रह सकती है। शुष्क मानसून से वर्ष 2023 में ग्वारसीड की बुवाई की प्रगति और उपज पर सीधे प्रभाव पड़ने की संभावना है। ग्वारसीड की कीमतें निकट भविष्य में 5200-5600/5800 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं, जबकि ग्वारगम की कीमतें 9500-11000 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

बाजार में घटती आपूर्ति के साथ मेंथा ऑयल वायदा (जून) की कीमतों के तेजी के रूझान के साथ साइडवेज कारोबार करने की संभावना है। लेकिन भारत से मेन्थॉल के निर्यात में गिरावट की खबरों से बढ़त पर रोक लगेगी। भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान लगभग 12.7 हजार टन मेन्थॉल का निर्यात किया, जो पिछले वर्ष के 19.7 हजार टन की तुलना में साल-दर-साल 36% कम है। बुआई के बेहतर आंकड़ों से भी कीमतों पर असर पड़ेगा। मेंथा ऑयल की कीमतों के 945-1000 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

पर्याप्त आपूर्ति के कारण अरंडी की कीमतों पर दबाव बने रहने की संभावना है। अरंडी तेल के अधिक उत्पादन और सीमित निर्यात मांग से कीमतों की तेजी पर रोक लग सकती है। वर्ष 2023 में कुल उत्पादन 18.82 लाख टन होने का अनुमान है जो साल-दर-साल 16% अधिक है। अरंडी वायदा (जून) की कीमतों के 5350-5900 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

### सर्षाफा

सोने की कीमतों में उल्लेखनीय उछाल दर्ज की गई है, जिसके कारण लगभग दो महीनों में सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त हुई है। कमजोर डॉलर और फेडरल रिजर्व के दरों में बढ़ोतरी के सख्त अभियान में ठहराव की बढ़ती उम्मीदों के कारण बुलियन की मांग में नए सिरों से बढ़ोतरी हुई। पिछले सप्ताह में, सोने की कीमतों में 1.7% की वृद्धि हुई, जो 7 अप्रैल को समाप्त सप्ताह के बाद से सबसे मजबूत प्रदर्शन को दर्शाता है। सोने के बाजार में सकारात्मक सेंटिमेंट बना हुआ है, और आगे बढ़ने की संभावना है क्योंकि फेडरल रिजर्व द्वारा जून ब्याज दरों को अपरिवर्तित बनाए रखने का अनुमान है। फिलाडेल्फिया फेड के अध्यक्ष पैट्रिक हार्कर ने अपना विचार व्यक्त किया कि मुद्रास्फीति की लगातार धीमी गति से गिरावट के बावजूद, आगामी बैठक में ब्याज दरों को नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। बाजार अब दरों के अपरिवर्तित रहने की संभावना 73.7% जता रहा है। डॉलर इंडेक्स में एक सप्ताह के निचले स्तर पर गिरावट के कारण भी सोने की कीमतों को मदद मिली क्योंकि इसने कीमती धातु को अन्य मुद्राओं वाले खरीदारों के लिए अधिक किफायती बना दिया। इसके अतिरिक्त, अमेरिकी सीनेट द्वारा द्विदलीय कानून के सफलतापूर्वक पारित होने, सरकार की ऋण सीमा को बढ़ाने से, ऐतिहासिक डिफॉल्ट के जोखिम को टाल दिया गया। लेकिन कमजोर डॉलर सहित सोने के बाजार में मौजूदा गतिशीलता और फेड की सख्ती में ठहराव की उम्मीद ने निवेशकों के बीच उम्मीदों को बढ़ावा दिया है, जिससे सोने की कीमतों में हाल ही में उछाल को मदद मिल रही है। कॉम्क्स में सोने की कीमतों को 1930 के आसपास मजबूत सपोर्ट मिल रहा है, जबकि 2000 डॉलर के स्तर के पास रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह, चांदी की कीमतों को 22.650 डॉलर के आसपास सपोर्ट मिल रहा है और 24.700 डॉलर के स्तर के पास रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। एमसीएक्स पर सोने की कीमतें 59000-61500 के दायरे में कारोबार कर सकती है जबकि एमसीएक्स पर चांदी की कीमतें 70000-76000 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

### एनर्जी कॉम्प्लेक्स

अमेरिकी ऋण सीमा पर चिंता और ओपेक+ की बैठक को लेकर अनिश्चितता के कारण पूरे सप्ताह कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया। ऋण सीमा समझौते और प्रमुख उत्पादकों के मिले-जुले बयानों के बीच शुरू में कीमतों में गिरावट हुई। लेकिन अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा ऋण सीमा विधेयक पारित करने के बाद, कीमतों में अपने निम्न स्तर से रिकवरी हुई। रिकवरी के बावजूद, कच्चे तेल की कीमतों में अभी भी सप्ताह-दर-सप्ताह आधार पर गिरावट दर्ज की गई है। बाजार सतर्क बना हुआ है क्योंकि आपूर्ति की गतिशीलता और ओपेक+ बैठक के परिणाम के बारे में अनिश्चितता बनी हुई है। व्यापारी और निवेशक कांग्रेस में विधेयक को लेकर गतिविधि और प्रमुख तेल उत्पादकों द्वारा कच्चे तेल की कीमतों की भविष्य की दिशा का आकलन करने के लिए किए गए निर्णयों की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। बाजार का ध्यान पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन और रूस सहित सहयोगियों की 4 जून की बैठक में स्थानांतरित हो गया है। अप्रैल में प्रति दिन 1.16 मिलियन बैरल प्रति दिन की आश्चर्यजनक कटौती के बाद ओपेक+ उत्पादन में अधिक कटौती से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आएगी। अमेरिकी कच्चे तेल के भंडार में पिछले सप्ताह अप्रत्याशित वृद्धि हुई। ऊर्जा सूचना प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार, यह आयात में वृद्धि और रणनीतिक भंडार में गिरावट के कारण हुई है, जो सितंबर 1983 के बाद से अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गया है। इस सप्ताह में कच्चे तेल की कीमतों में दोनों तरफ हलचल जारी रह सकती है और कीमतें 5500-6100 की व्यापक दायरे में कारोबार कर सकती है। पूर्वोत्तर में गर्म मौसम के कारण मांग में कमी होने से नेचुरल गैस की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी नेचुरल गैस के भंडार में 110 बीसीएफ की वृद्धि हुई, जो जनवरी 2023 के बाद से सबसे बड़ी साप्ताहिक वृद्धि है। इस सप्ताह में कीमतें निचले स्तरों से कुछ रिकवरी दर्ज कर सकती हैं लेकिन मुख्य प्रवृत्ति मदी की ओर बनी हुई है और कीमतें 160-185 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।



## बेस मेटल


बेस मेटल में निचले स्तर से खरीददारी हो सकती है क्योंकि अमेरिकी कर्ज सीमा को बढ़ाए जाने को लेकर बिल के पारित होने से निवेशक उत्साहित हैं। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा समर्थित द्विदलीय कानून पारित कर दिया है, जो सरकार के लिए 31.4 ट्रिलियन डॉलर की ऋण सीमा को हटा दिया है। लेकिन मांग को लेकर चिंताएं और एक निराशाजनक वैश्विक आर्थिक आउटलुक अमेरिकी ऋण सीमा सौदे से उम्मीदों को कमजोर कर सकता है। काउंटर शीर्ष उपभोक्ता चीन में ठोस मांग में वृद्धि की कमी, साथ ही पर्याप्त कच्चे माल और बढ़ती घरेलू आपूर्ति के कारण पहले से ही मंदी के जोखिम से उपजे नकारात्मक दबाव का सामना कर रहा है। चीन में मैनुफैक्चरिंग गतिविधि में कमी और औद्योगिक मुनाफे में गिरावट के कारण निवेशकों के बीच सेंटीमेंट कमजोर हो गया है। तांबे की कीमतें 700-735 के दायरे में कारोबार कर सकती है। तांबे की कीमतें चीन की आर्थिक सुधार की गति के साथ-साथ फेड की ब्याज दर में बढ़ोतरी के मार्ग से तय होने की संभावना है। चीनी रिसर्च फर्म एंटाइक के अनुसार वैश्विक स्तर पर तांबे की कीमतें इस साल की दूसरी छमाही में गिरकर 7,000 डॉलर प्रति टन होने वाली हैं, और मंदी के बढ़ते जोखिम और शीर्ष उपभोक्ता चीन में ठोस मांग में वृद्धि की कमी के कारण भविष्यवाणी की है। जिंक की कीमतें 200-220 के दायरे में कारोबार कर सकती है। एलएमई में जिंक की कुल इन्वेंट्री एक साल के उच्चतम स्तर 87,500 टन पर है, जो मई 2022 के बाद से सबसे मजबूत स्तर है, जो स्टील को गैल्वनाइज करने के लिए इस्तेमाल धातु के सरप्लस का संकेत देता है। लेड की कीमतें 177-186 के दायरे में कारोबार कर सकती है। एल्युमीनियम की कीमतें 204-215 के दायरे में कारोबार कर सकती है। एनसीडीईएक्स पर स्टील लॉन्ग (जून) की कीमतें नरमी के रूझान के साथ 45000-47000 के दायरे में कारोबार कर सकती है। वैश्विक मांग में कमी, सुदूर-पूर्वी एशिया और रूस से सस्ते आयात के प्रवाह के संयुक्त दबाव के कारण स्टील की कीमतों में गिरावट हो सकती है।

## तीसरा अग्रिम अनुमान 2021-22.... सभी रिकॉर्ड स्तरों के पार

2022-23 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, देश में कुल रिकॉर्ड 3305.34 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है जो 2021-22 के उत्पादन की तुलना में 149.18 लाख टन अधिक है। कृषि मंत्रालय के अनुसार 2022-23 के दौरान चावल, गेहूं, मक्का, सोयाबीन, गन्ना और सरसों जैसी प्रत्येक फसल के रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान है। मंत्रालय ने इस कृषि वर्ष में 328 मिलियन टन खाद्यान्न प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था।

यह रिकॉर्ड उत्पादन साफतौर पर भारत के किसानों, जिन्होंने खरीफ के साथ-साथ रबी सीजन में अधिक क्षेत्र में बुवाई की, की अथक मेहनत और उनके साहस, कृषि वैज्ञानिकों के अनुसंधान तथा केंद्र सरकार की किसान हितैषी सुविचारित नीतियों का परिणाम है। सरकार ने कृषि के बुनियादी ढांचे और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए।

तीसरे अग्रिम अनुमान के तहत, 2022-23 के दौरान प्रमुख फसलों का अनुमानित उत्पादन इस प्रकार है :



\* तीसरा अग्रिम अनुमान

स्रोत: कृषि मंत्रालय भारत सरकार

273.02 लाख टन उत्पादन की तुलना में 2.02 लाख टन अधिक है।

- सोयाबीन तथा रेपसीड एवं सरसों का उत्पादन क्रमशः 149.76 लाख टन एवं 124.94 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 2021-22 के उत्पादन की तुलना में क्रमशः 19.89 लाख टन और 5.31 लाख टन अधिक है।
- वर्ष 2022-23 के दौरान देश में कुल तिलहन उत्पादन रिकॉर्ड 409.96 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 30.33 लाख टन अधिक है।
- वर्ष 2022-23 के दौरान देश में गन्ने का उत्पादन रिकॉर्ड 4942.28 लाख टन होने का अनुमान है। 2022-23 के दौरान गन्ने का उत्पादन गत वर्ष के उत्पादन की तुलना में 548.03 लाख टन अधिक है।
- कपास का उत्पादन 343.47 लाख गांठें (प्रति गांठ 170 किग्रा) तथा पटसन एवं मेस्ता का उत्पादन 94.94 लाख गांठें (प्रति गांठ 180 किग्रा) होने का अनुमान है।

पिछले 8 वर्षों में लगातार रिकॉर्ड उत्पादन के साथ, भारत के पास खाद्यान्न का आरामदायक भंडार है जो न केवल वर्तमान वैश्विक खाद्य संकट के खिलाफ आत्मविश्वास प्रदान कर रहा है बल्कि दुनिया भी संकट से लड़ने के लिए भारत की ओर देख रही है। लेकिन भारत ने कई देशों द्वारा खाद्यान्न की जमाखोरी से बचने के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, फिर भी सरकार ने कई देशों को सरकार से सरकार के सौदों के आधार पर पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का वादा किया है।



आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- [www.smctradeonline.com](http://www.smctradeonline.com)



#### Corporate Office:

11/6B, Shanti Chamber,  
Pusa Road, New Delhi - 110005  
Tel: +91-11-30111000  
[www.smcindiaonline.com](http://www.smcindiaonline.com)

#### Mumbai Office:

Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402 , 4th Floor ,  
Graham Firth Steel Compound, Off Western  
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon  
(East) Mumbai - 400063  
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

#### Kolkata Office:

18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,  
5th Floor, Kolkata-700001  
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000  
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। सेबी द्वारा दिया गया पंजीकरण और एनआईएसएम से प्रमाणन किसी भी तरह से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है या निवेशकों को रिटर्न का कोई आश्वासन नहीं देता है। उद्धृत प्रतिभूतियां केवल उदाहरण के लिए हैं और अनुशासनात्मक नहीं हैं। एसएमसी सेबी द्वारा पंजीकृत एक अनुसंधान विश्लेषक है जिसका पंजीकरण संख्या आईएनएच 100001849 है। सीआईएन: L74899DL1994PLC063609 है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाओं और संबंधित सेवाओं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बाईबे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एसएमसी एक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड सेबी (रिसेच एनालिस्ट) रजुलेशन 2014 के तहत रिसेच एनालिस्ट के साथ रजिस्टर्ड संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एग्रीटि द्वारा सिन्क्रोटीज मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निर्बंधित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसेच एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री को शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसेच एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय हैं।

**दिसक्लेमर:** यह रिसेच रिपोर्ट अधिकृत प्रादाकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक के किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सक्कुलेशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉरपोरेट या सत्ता को ज़रूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश को वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसको (अ) समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या विक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या विक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौदों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।